



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 280]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 23, 1977/भाद्र 1, 1899

No. 280]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 23, 1977/BHADRA 1, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 23rd August 1977

**G.S.R. 587(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with sub-section (4) of section 3 of the Finance Act, 1977 (11 of 1977), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the Notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) No. 138-Customs [G.S.R. No. 427-(E)], dated the 1st July, 1977, namely:—

In the said notification, in the First Schedule, after Serial No. 94 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

Sl No.	Description of goods	Heading No. of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975
(1)	(2)	(3)
"95	Sub-assemblies, components, parts, accessories and ancillaries of electrical and electronic machinery, equipments, apparatus and appliances including sound recorders and reproducers	73.32, 73.33/40, 84.62, 84.63, 84.64, All headings under Chapters 85, 90 and Chapter 92."

[No. 191/F.No. 602/9/76-DBK.]

C. D. RANGACHARI, Dy. Secy.



**बिला संचालय**  
(राजस्व विभाग)  
अधिसूचनाएं  
सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1977

सा० का० नि० 387(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1977 (1977 का 11) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना सं० 138-सीमा-शुल्क [सा०का०नि० संख्या 427(अ)] तारीख 1 जुलाई, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, प्रथम अनुसूची में क्रम सं० 94 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

क्र०सं०	माल का वर्णन	सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में शीर्ष संख्यांक
(1)	(2)	(3)
"95	बैद्युत एवं एलेक्ट्रॉनिक मशीनों, यंत्रों, साधनों और उपकरणों के, इसके अन्तर्गत ध्वनि अभिलेख (साउंड रिकार्डर) और पुनरुत्पादक (रि-प्रोड्यूसर) भी हैं, उप-सामंजस, संघटक पुर्जे, साधन और उपस्कर	73.32, 73.33/40, 84.62, 84.63, 84.64, अध्याय 85, 90 और अध्याय 92 के अधीन सभी शीर्ष ।"

[सं० 191/का० सं० 602/9/76-प्र०अ०नि०]

सी० डी० रंयाचारी, उप-सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977